

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय  
वानिकी महाविद्यालय, कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई  
रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल-249199 (उत्तराखण्ड)



फोन नंबर : 01376-252 150

**कृषि मौसम परामर्श सेवा बुलेटिन, जनपद - बागेश्वर**

दिनांक- 14 मई, 2019

भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान आधारित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के अंतर्गत मौसम केन्द्र देहरादून से प्राप्त मौसम पूर्वानुमानित आँकड़ों के आधार पर उत्तराखण्ड के बागेश्वर जनपद में अगले पाँच दिनों निम्न मौसम रहने की सम्भावना व्यक्त की जाती है :-

मौसम प्राचल	मौसम पूर्वानुमान अवधि				
	15-05-2019 (14 मई सुबह 08:30 बजे से 15 मई सुबह 08:30 बजे तक)	16-05-2019 (15 मई सुबह 08:30 बजे से 16 मई सुबह 08:30 बजे तक)	17-05-2019 (16 मई सुबह 08:30 बजे से 17 मई सुबह 08:30 बजे तक)	18-05-2019 (17 मई सुबह 08:30 बजे से 18 मई सुबह 08:30 बजे तक)	19-05-2019 (18 मई सुबह 08:30 बजे से 19 मई सुबह 08:30 बजे तक)
वर्षा (मि.मी.)	8 मिमी. (हल्की)	3 मिमी. (हल्की)	3 मिमी. (हल्की)	8 मिमी. (हल्की)	12 मिमी. (मध्यम)
आसमान में बादल आच्छादन (ओक्टा: 0 से 8) 0 ओक्टा (पूरी तरह से साफ आसमान) 8 ओक्टा (पूरी तरह बादलों से घिरा आसमान)	6 ओक्टा (मुख्यतः बादल)	5 ओक्टा (मुख्यतः बादल)	4 ओक्टा (कुछ भाग बादल)	2 ओक्टा (कुछ भाग बादल)	5 ओक्टा (मुख्यतः बादल)
अधिकतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)	27	29	30	30	29
न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस)	15	16	16	15	14
अधिकतम सापेक्षित आर्द्रता (%)	90	80	80	85	90
न्यूनतम सापेक्षित आर्द्रता (%)	45	35	34	40	45
वायु की औसत गति (कि.मी./घंटा)	6	6	6	8	8
वायु की दिशा	उत्तर-पश्चिम	दक्षिण-पूर्व	उत्तर-पश्चिम	उत्तर-पश्चिम	उत्तर-पश्चिम

कृषि मौसम विज्ञान वेधशाला, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल(समुद्रतल से ऊँचाई-1827 मीटर)के प्रेक्षण अनुसार विगत सप्ताह (08 से 14 मई, 2019 सुबह 08:30 तक); मुख्यतः साफ आसमान रहने के साथ बारिश नहीं हुई। दिन का अधिकतम तापमान 25.4 से 28.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10.1 से 15.0 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 07:16 बजे सापेक्षित आर्द्रता 33 से 61 प्रतिशत तथा अपराह्न 14:16 बजे को 17 से 42 प्रतिशत के मध्य रही। हवा की औसत गति 3.7 से 5.1 किमी० प्रति घंटा रही। सप्ताह के दौरान हवा पूर्व व दक्षिण-पूर्व दिशा से चली।

सामान्यीकृत अंतर वानस्पतिक सूचनांक (Normalized Difference Vegetation Index) दिनांक 29 अप्रैल से 05 मई, 2019 के आधार पर कृषि ओज की स्थिति औसत (NDVI value 0.2 to 0.4) हैं।

## मौसम आधारित कृषि सलाह

फसल	अवस्था	कृषि मौसम सलाह
गेंहू, जौ (ऊंचाई क्षेत्र)	दाना बनना	सिंचाई का प्रयोग टाल दें। रोग ग्रसित व अवांछित पौधों को निकाल दें।
गेंहू, जौ, मसूर आदि (घाटी क्षेत्र)	परिपक्वता	फसल की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें।
झंगोरा, तोर, (ऊंचाई क्षेत्र_असिंचित)	अंकुरण	अंकुरण के 2-3 सप्ताह बाद निराई करें। निराई गुड़ाई के दौरान जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग कर फफूंद रोग जनक से फसल सुरक्षा करें।
प्याज, लहसुन	बल्ब वृद्धि	जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग कर फफूंद रोग जनक से फसल सुरक्षा करें। जल भराव न होने दें।
अदरक	बुवाई	खेत तैयार कर बुवाई करें। पलवार बिछाकर मृदा नमी संरक्षण करें।
आलू (ऊंचाई क्षेत्र_असिंचित)	वानस्पतिक वृद्धि	पंक्तियों के बीच में सूखी घास की पलवार बिछा दें। खरपतवार हटा दें। जैविक फफूंदनाशक का प्रयोग कर फफूंद रोग जनक से फसल सुरक्षा करें।
सेब, आड़ू, खुबानी, अखरोट	फल बढ़वार	ओला रक्षक जाली का प्रयोग करें। थालों में सूखी घास की पलवार बिछा दें। वर्षा जल भंडारण करें।
माल्टा	फूल	
टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन (घाटी क्षेत्र)	वानस्पतिक बढ़वार/फूल	पौधों को लकड़ी/ रस्सी का सहारा देकर सीधा खड़ा रखें। पौधे की निचली सतह की पत्तियां (जमीन से आधे से एक फीट ऊपर तक) को हटा दें।
मशरूम उत्पादन	-	खिडकियों पर महीन जाली व पॉलिथीन लगाकर रखें जिससे हवा के साथ कीट अंदर न आ सके।
पशुपालन	-	पशु को बारिश में भीगने से बचा कर रखें। गाय-भैंस में खुरपका-मुंहपका रोग टीकाकरण करवाएं। साफ जल का प्रयोग पीने के लिए करें।
वानिकी	-	जंगल की आग से सुरक्षा हेतु फायर लाइन बनायें, वर्षाजल भण्डारण करें। वर्षाकालीन वृक्षारोपण हेतु गड्डा खुदान कार्य करें। चारा प्रजाति व फलदार वृक्ष के पौधे की व्यवस्था करें।

**नोडल अधिकारी**  
**कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई** , रानीचौरी

**तकनीकी अधिकारी**  
**कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई, रानीचौरी**

**महत्वपूर्ण जानकारी:** जनपदस्तरीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि मौसम सेवा बुलेटिन सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को जारी की जाती है। मौसम पूर्वानुमान व कृषि मौसम सेवा बुलेटिन को ईमेल, व्हाट्सएप्प आदि पर निःशुल्क प्राप्त करने व फसल पर बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर फोटोग्राफ को मोबाइल/व्हाट्सएप्प नंबर: 9410944889 प्रकाश सिंह नेगी, तकनीकी अधिकारी, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पर भेजकर वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं, SMS हेतु मौसम विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाइन पंजीकरण: <http://imdagrmet.gov.in/farmer/Form.php>